



SHRI BAJRANG ALLIANCE LIMITED

Regd. Office & Works : 521/C, Urla Industrial Complex, Urla, Raipur 493221 (C.G.),
India Phone : +91-771-4288000, Fax : +91-771-4288001



E-Mail : sales.sbal@goeltmt.com, Website : www.sbal.co.in

Addl. Place of Business : Kh. No. 521/58, Dharsiwa-Tilda Road, Vill.-Tandwa, Tehsil-Tilda, Dist.-Raipur 493116 (C.G.)

CIN No. : L27103CT1990PLC005964

Dated: 13.02.2025

**To,
The Corporate Relation Department,
Bombay Stock Exchange Limited.
1st Floor, Rotunda Building,
Dalal Street, MUMBAI – 400 001**

Ref: BSE Scrip Code- 526981

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2024.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publications of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2024, published in the Mint and Chhattisgarh newspaper.

This is for your kind information and dissemination to all the concerned please.

Thanking You,
Yours faithfully,

For Shri Bajrang Alliance Limited



**Anshu Dubey
Company Secretary & Compliance Officer**

Encl. as above

MINT SHORTS

Space tech firm Digantara eyes \$30 mn revenue with US expansion

Bengaluru: Bengaluru-based space tech firm Digantara on Tuesday said it is targeting \$25-30 million in revenue over the next two years by expanding into the US, aiming to secure large-scale defence contracts and tap into the \$60 billion space surveillance and intelligence market. The startup plans to invest \$10-15 million over the next six-eight months to establish a spacecraft manufacturing and space optics production facility in Colorado, it said. Digantara has signed contracts with multiple US Department of Defense agencies, including the US Air Force and Space Force, but did not disclose further details. **REUTERS**

Nivaan Care raises \$4.25 million to expand clinical operations

Bengaluru: Nivaan Care, a multidisciplinary chronic pain management clinic chain, has secured \$4.25 million in seed funding led by Endia Partners, with participation from existing investor W Health Ventures. With multiple clinics in the Delhi-National Capital Region, the company aims to expand its operations to 10 new clinics across two cities, taking the number of clinics to 25. **ROSHAN ABRAHAM**

Markytics.AI snags seed funding from AH Ventures, angels

Bengaluru: Artificial intelligence (AI) startup Markytics.AI has raised \$500,000 in a seed funding round led by AH Ventures Fund, with participation from a group of angel investors. The capital infusion will help the company accelerate its product development, deepening market reach and enhancing client engagement. The company specializes in AI-driven solutions for collections, customer grievance management and marketing, among other things. **ROSHAN ABRAHAM**

Honest Home nets \$800,000 in Pre-Series A funding round

Bengaluru: The Honest Home Company has secured \$800,000 in a pre-Series A round of funding led by Ortelia Global Capital (OG) Capital, with participation from Anupam Mittal and other angel investors. The home and kitchenware brand said the funding will help the company scale its operations and expand its product range. **ROSHAN ABRAHAM**

Physics Wallah raises new funding; IPO next

The edtech firm has raised \$22-26 million at a valuation of \$3.7 billion

Sowmya Ranisubramanian & Mansi Verma

BENGALURU/MUMBAI
Edtech startup Physics Wallah has raised \$200-230 crore (\$22-26 million) in a secondary funding round led by existing investor WestBridge Capital, according to two persons in the know. The deal values the company at \$3.7 billion—up from \$2.8 billion just six months ago. Physics Wallah is also expected to offer to buy back stock options awarded to about 1,000 employees, one of the two persons cited earlier said, both of whom spoke on the condition of anonymity. The deal was closed last month, they added.

Secondary transaction refers to the sale of existing shares by investors or employees to new or existing investors, without the company issuing new shares or raising fresh capital.

The Noida-based firm is preparing to go public later this year and is likely to file its draft papers next month, *Mint* reported earlier. This follows its \$210 million round in September, led by Horribal Capital Advisors and Lightspeed Venture Partners—its second funding round, one of the toughest phases for India's edtech sector. The round not only more than doubled its valuation but also hinted at the company's IPO ambitions.

Westbridge and Physics Wallah did not immediately respond to queries sent by *Mint* on Tuesday morning.

Physics Wallah has been chasing aggressive growth over the past two years, entering new business segments and making acquisitions to expand into new markets. Its consolidated revenue nearly tripled to ₹2.05 crore in the fiscal year ended 31 March, but its losses surged on the back of a jump in expenses.

Physics Wallah was started as a YouTube channel in 2016 by co-founders Akshay Pan-



Physics Wallah co-founders Akshay Pandey (left) and Prateek Maheshwari.

dey and Prateek Maheshwari, and made a formal beginning as an edtech startup only in 2020. Physics Wallah became a unicorn, or a billion-dollar company, with its first funding round two years ago. The startup has raised over \$300 million so far. Pandey and Maheshwari own 77.4% of the company, while WestBridge Capital

platform and Physics Wallah's first acquisition.

In a bid to prepare for its public listing later this year, Physics Wallah has been bulking up its top deck. The edtech unicorn hired former Dilkret finance chief Amit Sachdeva as its chief financial officer in November last year.

Last month, Physics Wallah named Ajinkya Jain as its group general counsel, company secretary and compliance officer. It also appointed Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs and JPMorgan as bankers and is scheduled to file its draft red herring prospectus, *Mint* reported earlier.

This comes at a time when after over two years of a funding slowdown and valuation mismatches in private markets, edtech startups like Imartix, Classplus and Jano Education are gearing up for a public listing.

sowmya.ranisubramanian.com

Zeta's valuation zooms to \$2 bn after \$50 mn funding

Rwit Ghosh
rwt.ghosh@livemint.com
BENGALURU

Banking software provider Zeta has raised \$50 million in its latest funding round at a valuation of \$2 billion. The US-based startup achieved unicorn status back in 2021, when it raised \$250 million at a valuation of \$1.5 billion in a 2nd funding round that included Japanese investment firm SoftBank.

The latest investment was made by US-based healthcare services firm Optum, an arm of the UnitedHealth Group.

Zeta's full-stack system supports everything from core banking products to digital banking applications.

"For the most part, we believe the cash is just going to sit in the bank as a buffer. It's always nice to have a cash buffer in this market and industry," Zeta's global chief executive officer (CEO) and founder Bhavin Turakhia told *Mint* in an interview. The company says the \$50 million is most likely going into its cash reserves, which it can use to deal with unexpected expenses.

Sofar, the company has invested approximately \$400 million in the technology since its founding in 2015. Zeta says it's on the path to profitability and will be in the green by March 2026. "Our burn rate has consistently come down to a point where we're exceeding our targets," Turakhia said.

The banking technology space is a challenging place to be in, at a time when central banks worldwide are tightening regulations to protect con-



Zeta's global CEO and founder Bhavin Turakhia.

sumers, and competition in the fintech sector is heating up. But Turakhia believes there is opportunity in the sector like never before. "There is truly an opportunity to leverage new regulations and new opportunities in a meaningful way," he said.

Zeta is currently in conversation with 22 of India's top banks to sell its products. It's looking to close and convert some of them into long-term contracts within the next 12-18 months.

A report released by PwC India says a key focus area for banks in India is digital transformation. "I don't think any bank's CIO (chief information officer) will tell you that they want to continue with existing legacy systems for the next ten years," Turakhia said. However, he pointed out that financial institutions want to minimize impact on their existing portfolio and that their technology adoption is an "extremely high investment exercise."

For an extended version of this story, go to livemint.com.

GOING PUBLIC

PHYSICS Wallah is expected to offer to buy back stock options awarded to 1,000 employees

THE Noida-based edtech firm is preparing to go public later this year, likely to file draft papers in March

OTHER edtech firms like Imartix, Jano Education, Classplus are also gearing up for a public listing

has a 6.3% stake, as per data available with market intelligence platform Tracxn.

Last year, Physics Wallah acquired Nylem Learning, an AI-based learning platform for entrance exam preparation, and Knowledge Planet that provides test preparation services to non-resident Indians. In 2022, it bought FreeCo, a doubt-solving

homefirst
We'll take you home

HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED
(INC. 16599M/2010/PLC240703)
Regd. Office: 511, Apsara, Anandhi Katta Road, Andheri (East) Mumbai-400059
Phone No.: +91 22 6844 0396 Email Id: corporate@homefirstindia.com Website: www.homefirstindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given in terms of Sections 186, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, (any read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, the General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, the General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, the General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, the General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, the General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022, the General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all other applicable provisions under the said Regulations and the Circulars, Notifications and Rules issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India, Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India (including any statutory modification(s) or re-amendment(s) hereof for the time being in force and amended from time to time), and such other applicable laws and regulations, the approval of Members of Home First Finance Company India Limited (the "Company") is being sought to transact the business of raising of funds by way of issuance of equity shares to eligible investors through Qualified Institutions Placement(s), as set out in the Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement, which has been dispatched on February 11, 2025, only through electronic mode to all those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent Depository Participant(s) Depositories as on Friday, February 07, 2025 (the "Cut-Off Date"). The requirement for sending physical copy of the Notice and postal ballot form along with pre-paid business envelope, has been deferred with relevant MCA Circulars.

In accordance with the MCA Circulars, Members can vote only through the remote e-voting process. The voting rights of Members are in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date i.e. February 07, 2025. Members/beneficial owners as on the Cut-Off Date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The members are requested to provide their consent or dissent through remote e-voting only. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited to provide the remote e-voting facility to all its members. Members may cast their votes during the period mentioned herein below:

Particulars	Event Date
Commencement of remote e-voting	Wednesday, February 12, 2025 at 9:00 AM (IST)
End of remote e-voting	Thursday, March 13, 2025 at 05:00 PM (IST)

Remote e-voting will not be allowed between the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon the expiry of the aforesaid period.

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares with the depository through their Depository Participant or can send email to corporate@homefirstindia.com or to vote@nsdl.co.in. The Members are requested to send details of their Name, DPID-CLUD (16-digit DPID + CLUD or 16-digit beneficiary ID), client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR card) for registration of e-mail address. The instructions on the process of remote e-voting and member in which members can cast their vote through remote e-voting are provided in the Notice of Postal Ballot. A person who is not a Member of the Company is requested to treat this Notice for information purpose only.

The Notice of Postal Ballot will also be available on the Company's website at www.homefirstindia.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of NSDL at www.evotingindia.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ashish K. Bhat, Designated Partner of Bhat & Associates Company Secretaries LLP, Practising Company Secretaries (Membership No. 19639 and COP No. 7023) as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process only through the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot through remote e-voting along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Chairman of the Company or any other official authorized by him on or before March 18, 2025 and also displayed on the website of the Company at www.homefirstindia.com and also on the website of NSDL at www.evotingindia.com, besides being communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of NSDL at www.evotingindia.com. Additionally, the result will also be placed on the notice board of the Registered Office of the Company.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no. 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mehra, Sr. Manager at National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 or through email at evoting@nsdl.co.in

For Home First Finance Company India Limited
Sd/-
Shreyans Bachawat
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A26700

Date: 11-02-2025
Place: Mumbai

S. E. RAILWAY - TENDER

DRIEM/ENG. South Eastern Railway, Chakrabartiapur siding for & on behalf of the President of India invites E-Tenders against Open Tender. Manual Offers are not allowed against this tender and any such manual offer received shall be ignored. Tender **Notes No. SRF-350/19-24-25-51**, Date: 10.02.2025. Name of work: Through Rail renewal (Primary) along with TFR of existing 60 Kg 90 UTS rails laid on PSC-14 sleeper with new 60 Kg 90 UTS/8200 rails (NTR) for Bangalore Jani - Guu (TRR)-4.500 Tm. Padappah - Bolanahadan - TRR(P) - 5.500 Tm & Padappah-Nayagarthi - TRR(P) - 28.112 Tm. and 1.585 Tm on top line at km 531.03-532.555 between Jharkhand-Talaburu section under the jurisdiction of St-DEN (South) Chakrabartiapur. Tender Value: ₹ 3.51-1.59K. EMD: ₹ 3.25/700. Cost of tender form: ₹ 1 to state of Opening: 04.03.2025. The tender can be viewed at website www.repe.gov.in. The tender/bidder must have Class-III Digital Signature Certificate & must be registered under on IREPS Portal. Only registered tenderer/bidder can participate on e-tendering. All relevant paper must be uploaded at the time of participating in e-tendering. Note: e-Tender Forms shall be issued free of cost to all tenderers. (Authority - Railway Board's letter No. 20/2020-CT/13E/GC/Policy dated 16.07.2020). (Ref-1123)

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Company)
CIN: ITC000019995GHI1707

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on February 11, 2025, has approved the unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024.

The Financial results, along with the Limited Review Report, have been uploaded on the Company's website and websites of BSE & NSE. The same is available at https://www.irctc.com/assets/images/Integrated_Filing_Financials_2025 (11-Feb-2025).pdf and can be accessed by scanning the below QR code.

For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sanjay Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN: 09629741

Place: New Delhi
Date: 11th February, 2025

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Registered Office: IRTC Ltd., 4th Floor, Towers, World Trade Centre, Nauraj Nagar, New Delhi - 110029

SHRI BAJRANG ALLIANCE LIMITED
(Formerly Known as Shri Bajrang Allots Limited)

Regd. Office: CINC, UFA Industrial Complex, Uda, Rajpur-402211 (G.)
Tel. No. 0714-4282604, Fax: No. 0714-4282604
Website: www.sbal.co.in, Email: cs.sbal@sglgroup.co.in

Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine months Ended 31st December, 2024

Sl. No.	Particulars	STANDALONE									CONSOLIDATED									Rs. in Lacs (Except Per share Data)		
		Quarter ended			Nine Month ended			Year ended			Quarter ending			Nine Month ended			Year ended					
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Auditor					
1.	Total Income from Operations	10736.07	8843.10	1042.65	31895.21	34691.78	7426.41	10734.15	8042.56	1042.65	42.05	96.30	2.82	487.15								
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax/ Exceptional and/or Extraordinary Items)	47.73	42.60	-293.95	109.23	1.45	486.59	14.55	42.05	96.30	2.82	487.15										
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	17.73	42.60	-293.95	109.23	1.45	486.59	14.55	42.05	96.30	2.82	487.15										
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	34.53	44.55	-210.36	113.93	-1.28	312.56	31.35	44.00	-210.44	100.89	-0.53	312.85									
5.	Shares of Profit of Associates	-	-	-	-	-	649.19	706.58	946.41	2026.05	2679.79	3773.41										
6.	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	42.17	56.73	-197.04	114.91	75.35	395.69	618.94	762.76	759.30	2127.42	2755.89	4169.39									
7.	Paid-up Equity Share Capital	900.00	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900							
8.	Basic and Diluted Earning per share (of Rs.10/- each) (not annualised)	0.38	0.50	-2.34	1.26	-0.01	3.47	7.56	8.34	8.18	23.63	28.77	45.40									

Note: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 11.02.2025.
Note: 2. This is an extract of the detailed form of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months 31.12.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months on 31.12.2024 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website www.sbal.co.in.

Place: RAIPUR
Date: 11.02.2025

By Order of the Board
Sd/-
MANOJ KUMAR GOEL
Director
DIN:0111983

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम संचालित
पर्यटन भवन भद्रमदा रोड, भोपाल-462003
फोन - 0755-4027100, 2774340/42, www.mpstde.com
क्रमांक 95/वाकित/परिनि/25 दिनांक 11.02.2025

निविदा सूचना 49/ 2025 STDC_40237.1

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल वाट इन्फ्रिस्ट्रक्चर कार्ड रेंवु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रश्न APPENDIX 2 10 म.प्र. म.प्र. कोटि निर्माण विभाग में मजदूर श्रेणी में रजिस्ट्रार केन्द्रों में आवांति की जाति है। कार्य का नाम : भारत भवन भोपाल के परिसर में कल्याण का निर्माण कार्य अग्रगण्य लागत रजि. नं. 1072.59 रायच बेवासाद पर ऑनलाइन भूगतान कार्ड निर्माण प्रश्न (टेकर इन्फ्रिस्ट्रक्चर बेवासाद के माध्यम से जूज निके जा सकते है। निविदा प्रश्न ऑनलाइन ब्राउज़ करने की अंतिम तिथि 05.03.2025 समय सयं 05:00 बजे तक विर्यति है। कार्य का निरस्त विवरण बेवासाद <https://mpstenders.gov.in> पर देखा जा सकता है। म.प्र.माध्यम/118775/2025 कार्यपालन वेसी

MAKE YOUR MONDAY MORNING PLAYFUL

Catch the latest section of **Problemsatics** to solve a set of intriguing puzzles.

HT

M.P. HOUSING & INFRASTRUCTURE DEV. BOARD

NOTICE INVITING TENDER (SYSTEM TENDER No. 2025, MPHID, 402125_1)

Ref. No. : 294
Madhya Pradesh Housing & Infrastructure Development Board (MPHIDB) hereby invites online proposals through e-tendering mode from reputed consultants/firms for "Selection of Architect for Master planning, Designing and DPR preparation for Residential Towers on Humachand Mill land (of MPHIDB), Indore MP". Selection process would be as per RFP terms and conditions. Online bids are invited from interested bidders as per following details.

S. No.	Name of Work	Cost of Tender	Earnest Money Deposit (EMD)
1.	"Selection of Architect for Master planning, Designing and DPR preparation for Residential Towers on Humachand Mill land (of MPHIDB), Indore MP"	Rs. 20,000	Rs. 5,10,000

Note : (1) The bid documents can be purchased online only at www.mpstenders.gov.in as per schedule; 20.02.2025 at 10:30 AM to 13.03.2025 at 05:30 Hrs. (2) Interested bidders can view the detailed NIT on website <https://www.mpstenders.gov.in>. (3) Key Dates are available on e-tenderer website. (4) Amendments to NIT if any would be published on website only, and not in newspapers. (5) MPHIDB reserves the right to cancel the tender at any time without assigning any reason.

Visit us - www.mphousing.in / M.P.Madhyam/118775/2025

(Rajkumar, E.E.)
MPHIDB, Division 1, Indore
Mob. 9303270087

